



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, जनवरी 11—जनवरी 17, 2004, शनिवार/पौष 21—पौष 27, 1925

No. 3] NEW DELHI, JANUARY 11—JANUARY 17, 2004, SATURDAY/PAUSA 21—PAUSA 27, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (III)
PART II—Section 3—Sub-Section (III)

केन्द्रीय अधिकारियों (केन्द्र शासक क्षेत्र प्रशासकों के छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएँ
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2003

आ. अ. 4.—यतः, गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2002 में, 69-दरियापुर-काजीपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला एक अभ्यर्थी श्री केशुभाई अग्रवाल, बी-73 प्रफलनगर, सुमिननगर, वस्त्राल, अहमदाबाद को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी, अहमदाबाद, गुजरात तारीख 09-07-2003 के पत्र द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने के संबंध में दी गई रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने तारीख 07-08-2003 के आदेश सं. 76/गुज./2003 द्वारा निरहित किया गया था; और

यतः, आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी, अहमदाबाद से दिनांक 02-12-2003 की एक और रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जिला निर्वाचन अधिकारी, अहमदाबाद की अद्यतन रिपोर्ट में निहित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, आयोग ने यह निर्णय किया है कि उक्त अभ्यर्थी श्री केशुभाई अग्रवाल पर लगाई गई निरर्हता आरम्भ से हटाई जाती है।

[सं.गुज.-वि.स./69/2003]

आदेश से,

एस.के. कौरा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 12th December, 2003

O.N. 4.—Whereas, Shri Kesubhai Agrawal, E73, Prafulnagar, Suminnagar, Vastral, Ahmedabad a contesting candidate for the General Election to the Gujarat Legislative Assembly-2002 from 69-Dariapur-Kazipur was disqualified by the Election Commission of India vide its Order No. 76/GJ/003 dated 07-08-2003 under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, on the basis of report of District Election Officer, Ahmedabad, Gujarat intimating non submission of account of election expenses by the said candidate vide its letter dated 09-07-2003, and

Whereas, the Commission has now received further report dated 02-12-2003 from the District Election Officer, Ahmedabad, and after considering all material facts contained in latest report of the District Election Officer, Ahmedabad and in exercise of the powers conferred by Section 11 of the Representation of People Act, 1951, the Commission has decided to revoke *ab-initio* the disqualification imposed upon the above said candidate, Shri Kesubhai Agrawal.

[No. GJ-LA/69/2003]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004

आ. अ. 5.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट फरवरी, 2000 में हुए हरियाणा राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है,

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2000।	15-घरौण्डा	श्री राम सिंह कश्यप, पुत्र श्री लच्छु राम, गांव मन्वरी, डा. शेखपुरा, तहसील असन्ध, जिला करनाल	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री सुनहरा, पुत्र श्री रामकिशन, गांव शाहपुर, डा. सिरसी, जिला करनाल	-वही-
3.	-वही-	25-कैथल	श्री बलकार सिंह, अशोका गार्डन कालोनी, कैथल	-वही-
4.	-वही-	26-पुण्डरी	श्री अमर नाथ, कैथली गेट, पुण्डरी, जिला कैथल	-वही-
5.	-वही-	-वही-	श्री नरेन्द्र, पुत्र श्री माम राज, कैथली गेट, मोहल्ला खटीकों वाला, पुण्डरी, जिला कैथल	-वही-

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2000	27-पाई	श्री बलबीर सिंह, गांव व डा. मुन्दरी, त. व जिला कैथल	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7.	-वही-	-वही-	श्री राम पाल, गांव व डा. बिछपुर, त. व जिला करनाल	-वही-
8.	-वही-	-वही-	श्री सुकराम पाल, गांव शेखपुरा खालसा, त. असन्ध, जिला करनाल	-वही-
9.	-वही-	-वही-	श्री हरभजन सिंह, मकान नं. 558, वार्ड नं. 4, अवतार सिंह कालोनी, करनाल	-वही-
10.	-वही-	44-कलायत (अ.जा.)	श्री जोगी राम, मकान नं. 93, वार्ड नं. 12, बाल्मीकि बस्ती कलायत, जिला कैथल	-वही-
11.	-वही-	-वही-	श्री बलवीर, गांव व डा. खरक पाण्डवा, जिला कैथल	-वही-

[सं. 76/हरि.-वि.स./2000(5)]

आदेश से,
के. अजय कुमार, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th January, 2004

O.N. 5.—Whereas, the Election Commission is thus satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the election specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	No. & Name of A.C.	Name & Address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Haryana Legislative Assembly, 2000.	15-Gharaunda	Sh. Ram Singh Kashyap, S/o Lachhu Ram, Vill Manchuri, P. O. Sheikpura Teh. Assandh, Distt. Karnal	Failed to lodge any account of election expenses.

1	2	3	4	5
2.	General Election to Haryana Legislative Assembly, 2000.	15-Gharaunda	Sh. Sunehra, S/o Ram Kishan, R/o Shahpur, PO Sirsi, Distt. Karnal	Failed to lodge any account of election expenses.
3.	-do-	25-Kaithal	Sh. Balkar Singh, Ashoka Garden Colony, Kaithal	-do-
4.	-do-	26-Pundri	Sh. Amar Nath, Kaithal Gate, Pundri, Distt. Kaithal	-do-
5.	-do-	-do-	Sh. Narender, S/o Mam Raj, Kaithal Gate, Mohalla Khatikan wala Pundri Distt. Kaithal	-do-
6.	-do-	27-Pai	Sh. Balbir Singh, V & PO Mundri, Teh. & Distt. Kaithal	-do-
7.	-do-	-do-	Sh. Ram Pal, V & PO Birchhpur, Teh. & Distt. Karnal	-do-
8.	-do-	-do-	Sh. Sukram Pal, V. Shekhpura Khalsa, Teh. Assandh, Dist. Karnal	-do-
9.	-do-	-do-	Sh. Harbhajan Singh, H.No. 558, Ward No. 4, Awatar Singh Colony, Karnal	-do-
10.	-do-	44-Kalayal (SC)	Sh. Jogi Ram, H. No. 93, Ward No. 12, Balmiki Basti, Kalayat, Distt. Kaithal	-do-
11.	-do-	-do-	Sh. Balvir, V. P. O. Kharak Pandawa, Distt. Kaithal	-do-

[No. 76/HN-LA/2000(5)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004

आ. अ. 6.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 78-फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले श्री उपेन्द्र कुमार, मकान नं. 203, भीमा बस्ती, फतेहाबाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और श्री उपेन्द्र कुमार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है।

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री उपेन्द्र कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/हरि.-वि.स./2003(उप)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2004

O.N. 6.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Upender Kumar, resident of H.No. 203, Bhima Basti, Fatehabad, Haryana a contesting candidate at the Bye-Election to Haryana Legislative Assembly, 2003 from 78-Fatehabad Assembly Constituency has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder; and

Whereas, Shri Upender Kumar has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Upender Kumar, to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/HN-LA/2003 (Bye)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004

आ. अ. 7.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2003	228-चिरईगाँव	अकील एस.-2/251, भोजूबीर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	नन्दू लाल सोनकर, एस.-24/17-6, ढकटपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	-वही-
3.	-वही-	-वही-	सोमनाथ, 17/42सी, पहाड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	-वही-

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2003 (उप)]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2004

O.N. 7.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the Bye-Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Constituency	Name & Address of contesting candidates	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye-election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2003.	228-Chirgaon	Akeel, S-2/251, Bhojubeer, Varanasi, Uttar Pradesh	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	-do-	Nandu Lal Sonkar, S-24/17-6, Takatpur, Varanasi, Uttar Pradesh	-do-
3.	-do-	-do-	Somnath, 17/42C, Pahadiya, Varanasi, Uttar Pradesh	-do-

[No. 76/UP-LA/2003 (Bye)]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-cum-Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004

आ. अ. 8.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनियम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	168-पिपराइच	श्री रामअचल यादव, ग्राम व पो.-परशुरामपुर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	184-कसया	अरविन्द, ग्राम-मेदी पट्टी, पो. मेहाहरहंगपुर, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-

1	2	3	4	5
3.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	185-गौरीबाजार	मनोब्वर, ग्राम-भरथापट्टी, पो०-पिपरा मदन गोपाल, देवरिया, उत्तर प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4.	-वही-	-वही-	नागेन्द्र सिंह, ग्राम-देवरिया नकछेद, पो०-पकड़ीवीरभद्र, उत्तर प्रदेश	-वही-
5.	-वही-	-वही-	किशोर, ग्राम-पिपरही, पो०-बरपार, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
6.	-वही-	186-रूद्रपुर	मेवालाल, ग्राम-जाफराबादकोटिया, पो०-एकला मिश्रौलिया, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
7.	-वही-	-वही-	विजई, ग्राम-मठिया, पोस्ट-मदनपुर, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
8.	-वही-	-वही-	शंकर, ग्राम-रामलक्ष्मण, पोस्ट-लक्ष्मीपुर, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
9.	-वही-	-वही-	होलाल अहमद, ग्राम व पोस्ट-मदनपुर, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
10.	-वही-	-वही-	अर्जुन, ग्राम व पोस्ट-कोरवां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
11.	-वही-	-वही-	अरविन्द कुमार, ग्राम व पोस्ट-पिपराकछार, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
12.	-वही-	-वही-	अवधेशनरायन ग्राम-भिरवां, पो०-नगवा खास, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
13.	-वही-	-वही-	राजकपूर यादव, ग्राम व पोस्ट-कोइलगढ़हा, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
14.	-वही-	187-देवरिया	चौधी प्रसाद गौड़, ग्राम-कोल्हुआ, देवरिया उत्तर प्रदेश	-वही-
15.	-वही-	-वही-	जहीरुद्दीन, तहसील-रोड़ देवरिया उत्तर प्रदेश	-वही-

1	2	3	4	5
16.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	187-देवरिया	कमलेश गुप्ता, ग्राम-कसमौनी, पोस्ट-बैकण्ठपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17.	-वही-	-वही-	रामानन्द गिरि, ग्राम/पोस्ट-पकहॉ, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
18.	-वही-	-वही-	शिवाजी, ग्राम-बघड़ा, महुआरी, पोस्ट-बघड़ा, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
19.	-वही-	189-सलेमपुर	श्रीमंती चम्पा, ग्राम-बभनौली, पोस्ट-सलेमपुर, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
20.	-वही-	-वही-	अनवर अली, ग्राम व पोस्ट-मझौलीराज, तहसील-सलेमपुर, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
21.	-वही-	-वही-	जर्नादन उर्फ भोला यादव, ग्राम-लोहरौली घमडर, पोस्ट-सोहनाग, तहसील-सलेमपुर, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
22.	-वही-	-वही-	जितेन्द्र, ग्राम व पोस्ट-डुमवलिया, तहसील-सलेमपुर, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
23.	-वही-	190-बहराइच	पं. नित्यानन्द उपाध्याय, ग्राम-नहुआ, पोस्ट-धौला पंडित, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
24.	-वही-	-वही-	रविन्दर, ग्राम-तेलिया अफगान, पोस्ट-तेलिया कला, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
25.	-वही-	-वही-	रमेश, ग्राम-सहियागढ़, पोस्ट-तकिया, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
26.	-वही-	-वही-	विवेन्द्र उर्फ निरंजन दास, ग्राम व पोस्ट-भलुअनी, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
27.	-वही-	-वही-	सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, ग्राम-भरहाबाबू, पोस्ट-धौला पण्डित, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
28.	-वही-	-वही-	हरेराम, ग्राम-कहॉव, पोस्ट-अड़िला, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2002]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2004

O. N. 8.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	Sl. No. & Name of constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reason of Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, of the State of Uttar Pradesh, 2002.	168-Pipraich	Ramachal Yadav, Vill. & Post-Parshurampur, Distt.-Gorakhpur, Uttar Pradesh	Failed to lodge any account of his/her election expenses
2.	-do-	184-Kasya	Arvind, Vill.-Medi Patti, Post-Meha Harhangpur, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
3.	-do-	185-Gauribazar	Manauar, Vill.-Bharatha Patti, Post-Pipra Madan Gopal, Deoria, Uttar Pradesh	-do-
4.	-do-	-do-	Nagendra Singh, Vill.-Deoria Nakched, Post-Pakari Beerbhadra, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
5.	-do-	-do-	Kishor, Vill.-Piprahiya, Post-Barpar, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
6.	-do-	186-Rudrapur	Mevalal, Vill.-Japhrabadkotia, Post-Elka Mishraulia, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
7.	-do-	-do-	Vijai, Vill.-Mathia, Post-Madanpur, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
8.	-do-	-do-	Shankar, Vill.-Ramlakhshan, Post-Lakshmipur, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-

1	2	3	4	5
9.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	186-Rudrapur	Holal Ahmad, Vill.- & Post-Madanpur, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	Fauled to lodge any account of his/her election expenses.
10.	-do-	-do-	Arjuna, Vill. & Post-Korvan, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
11.	-do-	-do-	Arvind Kumar, Vill. & Post-Piparakachhar, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
12.	-do-	-do-	Avadheshnarain, Vill.-Bhirawan, Post-Nagawakhas, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
13.	-do-	-do-	Raj Kapoor Yadav, Vill. & Post-Koilgarha, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
14.	-do-	187-Deoria	Chauthi Prasad Gond, Vill.-Koluwa, Deoria, Uttar Pradesh	-do-
15.	-do-	-do-	Zahiruddin, Tehsil-Road Deoria, Uttar Pradesh	-do-
16.	-do-	-do-	Kamlesh Gupta, Vill.-Kushmauni, Post-Bakunthpur, Deoria, Uttar Pradesh	-do-
17.	-do-	-do-	Ramananda Giri, Vill. & Post-Pakaha, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
18.	-do-	-do-	Shivaji, Vill.-Baghara Mahuwari, Post-Baghara,, Deoria, Uttar Pradesh	-do-
19.	-do-	189-Salempur	Smt. Champa, Vill.-Babhnauli, Post-Salempur, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
20.	-do-	-do-	Anwar Ali, Vill.& Post-Majhauri Raj, Tehsil-Salempur, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
21.	-do-	-do-	Janardan Alias Bhola Yadav, Vill.-Lohrauli Dhamaur, Post-Sohnag, Tehsil-Salempur, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-

1	2	3	4	5
22.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	189-Salempur	Jitendra, Vill. & Post-Dumwaliya, Tehsil-Salempur, Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
23.	-do-	190-Barhaj	P. Nityanand Upadhyay, Vill.-Naduwa, Post-Dhaura Pandit, Distt.-Deoria Uttar Pradesh	-do-
24.	-do-	-do-	Ravindar, Vill.-Teliya Afgan, Post-Teliya Kala, Deoria, Uttar Pradesh	-do-
25.	-do-	-do-	Ramesh, Vill.-Sahiya Garh, Post-Takiya, Deoria, Uttar Pradesh	-do-
26.	-do-	-do-	Virendra Alias Niranjan Das, Vill. & Post-Bhulanani Distt.-Deoria, Uttar Pradesh	-do-
27.	-do-	-do-	Surendra Kumar Upadhyay, Vill. Bharha Babu, Post-Dhaura Pandit, Deoria, Uttar Pradesh	-do-
28.	-do-	-do-	Harey Ram, Vill. Kahaon, Post- Andila, Deoria Uttar Pradesh	-do-

[No. 76/UP-LA/2002]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-Cum-Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004

आ. अ. 9.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट राजस्थान विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न ही स्पष्टीकरण दिया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायविरुद्ध नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहर्ता के कारण
1	2	3	4	5
1.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन, 2002	57-बानसूर	श्री नन्द राम गांव-गुन्ती तह.-बहरोड़	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	-वही-	-वही-	सुबे सिंह यादव गांव-दहमी तह.-बहरोड़	-वही-

[सं. 76/राज./2003-प. अनु. 1]

आदेश से,

एस. के. कौरा, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2004

O. N. 9.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the Bye-Election to the Legislative Assembly in Rajasthan State specified in column (2) and held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission, or after considering the representation made by them, if any the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	Sl. No. & Name of Assembly constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye-Election to the Legislative Assembly, 2002.	57-Bansur	Nand Ram, Vill.-Gunti Tehsil-Behror	Account not lodged.
2.	-do-	-do-	Sube Singh Yadav Vill.-Dahmi Tehsil-Behror	-do-

[No. 76/RJ/2003/W.S.-I]

By Order,

S.K. KAURA, Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

आ. अ. 10.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग पॉण्डिचेरी सरकार के परामर्श से श्री बी० विजयन, आई०ए०एस० के स्थान पर श्री चेतन बी० सांघी, आई०ए०एस० (ए०जी०एम०यू०-88) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पॉण्डिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्वारा नामित करता है। उन्हें निर्वाचनों के संबंध में राज्य सचिवालय के उस विभाग में, सरकार के सचिव के रूप में भी पदाभिहित किया जाएगा।

आयोग, पॉण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पूर्णकालिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए जोर नहीं दे रहा है, क्योंकि इस संघ राज्य-क्षेत्र में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र नहीं हैं। जैसे ही साधारण निर्वाचन निकट होंगे, श्री चेतन बी० सांघी को सभी तथा प्रत्येक अतिरिक्त कार्य भार से मुक्त कर दिया जाएगा।

[सं० 154/पॉण्ड./2003-का० प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र नाथ बुटोलिया, अवर सचिव

New Delhi, the 12th January, 2004

O.N. 10.—In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Pondicherry hereby nominates Shri Chetan B. Sanghi, IAS (AGMU : 88) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Pondicherry with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri B. Vijayan, IAS. He will also be designated as Secretary to the Govt. in the Deptt. in the State Secretariat dealing with elections.

2. The Commission is not insisting on a full time Chief Electoral Officer in Union Territory of Pondicherry as the Union Territory has not more than two Parliamentary Constituencies. As soon as general election becomes imminent, Sh. Chetan B. Sanghi shall be divested of all and every additional charge.

[No. 154/POND/2003-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.